गीत-गुलशन

(सिन्धी-गीत)

डॉ. मूलचन्द पी. कोॾवाणी "आशाशील"

BIPCS(

Geet-Gulashan (Sindhi-Geet)

BVP05060

गीत-गुलशन

(सिन्धी-गीत)

रचीन्दड़ :- **डॉ. मूलचन्द पी. कोड॒वाणी "आशाशील"**
एम. ए. , ए. वी. आर. (उ. प्र.)
सहयोगिणी :- **श्रीमती पदमा एम. कोड॒वाणी**
3 /153 /25 डी/5 सी. सत्यनगर,
शाहगंज, आगरा-282010
मो. 09528270557

कापियूं - 1000
कीमत - 50 रु०

सिर्फ शायर जा हक वास्ता

तारीख - 15 जून 2010
छापो - पहिरियूं

(पुस्तक का प्रकाशन उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी लखनऊ की प्रकाशन अनुदान योजना के अन्तर्गत किया गया है।)

आवरण - **सन्तोष कुमार**
प्रकाशन व्यवस्था- **प्राच्य साहित्य परिषद्**, 9/379 मोती कटरा आगरा-3
मो. 9837380531

मुहाॻु

आगरा जे झूननि शायरनि मां हिकु आहे डॉक्टर मूलचन्द पी० कोॾवाणी “आशाशील”, जिनि उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमीअ तरफां साल 1998 में लखनऊ में कोठायल अदीबनि जे मेड़ ऐं कवि सम्मेलन में भाॻ वरतो। वरी साल 2001 में आगरा में उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमीअ जे ज़ेरि साए ॿाल गीत कवि सम्मेलन में भाॻ वठी आगरा जे अदीबनि जो नालो रोशन कयो। जॾहिं हिन जो पहिरियों किताबु “वाॻ धणी तुंहिंजे वसि” नाले बैतनि जो मजमूओ उ० प्र० सिन्धी अकादमी, लखनऊअ जी माली मदद सां छपिजी पधिरो थियो। तॾहिं अदबी क्षेत्र में पंहिंजी सुञाणप दर्ज कराई, इन लाइ हिन बुॼुर्ग शाइर खींरू लहिणियूं।

नज़्मु लिखणु ही लिहाज़ खां नसुर खां काफी ॾुखियो कमु आहे। नज़्म में जुदा-जुदा विषय जे आधार ते भाव ऐं रस जो ख़्यालु रखणो पवन्दो आहे। सो डॉ० कोॾवाणी “आशाशील” पंहिंजे ॿिए कविता संग्रह “गीत-गुलशन” में इन्हनि जो समूरो ख़्यालु रखियो आहे। गुलशन जे गुलनि रूपी गीतनि जी सुरहाणि तव्हां खे बि गुलशन रूपी कविता संग्रह (किताब) में ज़रूरु मिलन्दी।

डॉ० कोॾवाणी “आशाशील” जे जुदा-जुदा उनवाननि जे कविताउनि में जुदा-जुदा रस, भाव ऐं वीचार समायल आहिनि। जींअं त ‘भॻती भाव’ सां भरपूर कविताऊं अथसि ‘प्रभू-प्रार्थना’, ‘रबु’, ‘रंगीलो’, ‘पहरेदार’, ‘आरजू’ वगेरह वगेरह। पहरेदार नाले कविता में मन जी चंचलता जे मथां विचार ज़ाहिरू कन्दे लिखियो अथसि—

मनु आ चंचलु मुंहिंजो—थिजाईं खबरदार।
किथे फिसिलजी न वञे—पकिड़ि जाईं पहरेदार॥

“देश प्रेम” ऐं “फौजी” कविताऊं वत्तन जी हुब ऐं वीर रस सां भरपूर आहिनि। “नियापो”, “पैग़ाम” ,“ॾोरापो”,“ससुई पुन्हू”, “उमर-मारुई” वग़ैरह कविताउनि में “करुणा-रसु” समायल आहे। जींअं सीता माता ॿाॾाईन्दे हनूमान खे चवे थी—

चउ वञी श्री राम खे — सीता हर हर थी रोए।
रोटी पाणी विसरी बई — थी तोखे हर दम यादि करे॥
हाणु जल्दु अची — रावण खां मूंखे छड॒ाइ।
दे॒ई सत फेरा पत्नि बणायइ — हाणु नातो अची निभाइ॥

वरी अचो "हास्य रस" में 'जलन', 'समाज', 'कलयुग जी महिमा' वग़ैरह कविताऊं आहिनि। असां जे शाइर साहिब दिलि जे उमंगनि खे मज़ाक़िया नूअ में इन्हनि कविताउनि इज़हारु कयो अथसि। डॉ० कोड॒वाणी साहिबु जवानीअ में शायदि पंहिंजी दिलि कंहिं खे डे॒ई वेठो हून्दो। सन्दसि सूंहं ते मोहितु थियण सबबि दिलि जी बेबसीअ ते कलमु हलायो अथसि—

साक़ी! तो सां मुहब्बत — मां कीअं करियां?
मुंहिंजे दिलि में आ – महिबूबु हिकिड़ो,
बि॒यो दिलि में — कीअं धारियां?

'साक़ी', 'सजनी 'जीवन साथी', 'चोड॒सि जो चन्डु', 'सच्चो प्यारु' वग़ैरह कविताउनि में श्रृंगार रस जी बि झलक मिले थी।

असां जे शाइर "आशाशील" सिन्धी समाज जो ग॒ाटु ऊंचो रखण लाइ— 'कायमु रहे सिन्धी ब॒ोली', सिन्धियुनि जो शानु', 'वक्तु' वग॒ेरह जहिड़ियूं कविताऊं लिखी सिन्धियत दा॒हुं पंहिंजे जज़बात जो इज़हारु कयो आहे। इन खां सवाइ शाइर साहिब 'अजु॒ जूं नारियूं', 'नारी', 'माता जी महिमा' लिखी नारीअ जी साराह बि कई अथसि। ईश्वर जी कायनाति खे बि कोन छडि॒यो अथसि—'गुल', 'कुदरत', 'धरती' वग़ैरह कविताऊं लिखी कादिर जी कुदरत खे खूबु साराहयो अथसि। 'कुदरत' जे मथां कविता जूं हीउ सिटूं पंहिंजो मटु पाण आहिनि—

"आशाशील"कहिड़ी साराह करियां तुंहिंजी।
सिज, चण्ड, तारनि में बि महिर आ तुंहिंजी॥
सिखे इन्सान तो मां— ओ कुदरत वारा।
डि॒सन्दे लग॒नि था— सभु प्यारा प्यारा॥
वाह वाह तुंहिंजा— कुदरती नज़ारा।

ड॒िसन्दे लग॒नि था— सभ प्यारा प्यारा ॥

कविता लिखणु हिकु लासानी फनु आहे, जंहिं में शाइरु पंहिंजे शख़्सी उधमनि सां गदु॒ समाज में रहन्दड़ सभिनी जे जज़्बात जो इज़्हारु करे थो। हिन कविता संग्रह में कोड॒वाणी साहिब हयातीअ जे हर पहलूअ खे छुहण जी कोशिश कई अथसि। जीअं 'दिलिदारु' 'इन्सान', 'मुसाफिर', 'ब॒ालकु', 'बुढो,' 'पैसो', 'समाजु, 'मतलबी दुनिया', 'फिरियलु ज़मानो', 'ग़रूरु', 'ज़िन्दगी छा आहे?', 'कवि ऐं कविता' वग़ेरह कविताऊं लिखी केतिरनि ई इन्साननि खे सिधो समुझायो अथसि। हालांकि सभिनी कविताउनि में समुझाणी आहे। हिक हन्धि पंहिंजे नन्ढपुणि जे दिलबर दोस्त खे थो लिखे, जंहिं सां सुख-दुख में पंजाहु साल गडु॒ गुज़ारिया अथाईं—

"आशाशील" तोखे रोई रोई थो पुकारे।
अचु दिलबर दोस्त —देरि न करि हाणे ॥
तुंहिंजे ई इन्तज़ार में —थी विया अझा वार।
छो रुठलु आहीं— दिलबर दिलिदार ॥
असां ब॒िन्ही जे विच में— कहिड़ी आ दीवार ॥

हिन बुज़ुर्ग अदीब तमाम सवली सिन्धी भाषा शैलीअ जो स्तेमाल कयो अथसि। मूंखे उम्मीद ऐं पको विश्वासु अथमि त हीउ "गीत-गुलशन" असां जे मायनाज़ शाइर जो मानु वधाईन्दो। हिन पंहिंजे दिलि जी धड़कन खे अमली जामो पहिराए असां जे अग॒ियां हिकु नओं मिसालु पेश कयो अथसि। सिन्धी समाज जे हिन बुज़ुर्ग अदीब जी महिनत ऐं जफाकशी ईन्दड़ पीढ़ीअ खे रोशन राह द॒ेखारीन्दी, इहा पक अथमि।

सिक मंझा

मोहन लाल खेमचन्द नागदेव
एम. कॉम., बी. एड.
सेवा निवर्त वाणिज्य अध्यापक
फोन निवास: 2520522

नागदेव-निकेतन
36/318-A, नेहरू नगर
आगरा-282002
20-3-2007 (चेटी चण्ड)

मां हिन्हनि जो तहेदिल सां शुक्र गुज़ार आहियां

1. आगरे जो समाज सेवी ऐं साहित्यकार श्री मोहन लाल नागदेव जी जहिं हिन किताब "गीत गुलशन" जो मुहागु लिखी किताब में सुगंध फैहलाई आहे।

2. आगरे जा साहित्यकार श्री राम चन्द छाबड़िया ऐं श्री मोहनलाल बोधवाणी "मलंग" (सम्पादक चाण्डोकी पत्रिका (रजि०) आगरा) ऐं सिन्धी समाज जा समाजसेवी जीअं त श्री हेमन्त भोजवाणी ऐं श्री जितेन्द्र त्रिलोकानी वग़ेरह मूंखे साहित्यकार ऐं समाज सेवी जे रूप में दुशाला ऐं हार पाए सम्मान कयो।

हिन्हनि सभनि जो मां घणो ई आभारी अहियां।

सेवा में

डॉ० मूलचन्द कोडवाणी "आशाशील"

3/153/25 डी/5 सी: सत्य नगर,

रुई की मण्डी, शाहगंज, आगरा-282010

मो० 09528270557

फ़ेहिरिस्त

कविता पेज
1. प्रभू प्रार्थना 7
2. रंगीलो 8
3. रबु 9
4. पहरेदारु 10
5. आरज़ू 11
6. नियापो 12
7. पैग़ाम 13
8. ॾोरापो 14
9. देश प्रेम 15
10. फ़ौजी 16
11. सिन्धी रतन 17
12. कायमु रहे सिन्धी ॿोली 18
13. सिंधियत जो शानु 19
14. कवि ऐं कविता 20
15. वक़्तु 21
16. अॼु जूं नारियूं 22
17. गुल 23
18. क़ुदरत 24
19. धरती 25
20. इंसान 26
21. मुसाफिर 27
22. ॿालकु 28
23. ॿुढड़ो 29

कविता पेज
24. पैसो 30
25. जलन 31
26. ससुई-पुन्हू 32
27. उमरु-मारुई 33
28. ससुई-पुन्हू 34
29. चोॾसि जो चण्डु 35
30. सचो प्यारु 36
31. साक़ी 37
32. जीवन साथी 38
33. सजनी 39
34. माता जी महिमा 40
35. नारी 41
36. कलयुग जी महिमा 42
37. समाज 43
38. फिरियलु जमानो 44
39. उथी कमु करि 45
40.हिमथ 46
41. दुनियां 47
42.ज़िन्दगी छा आहे 18
43. जिन्दगीअ जो सफरु 19
44. अरमान 50
45. ग़रूर 51
46. मतलबी दुनियां 52

प्रभु-प्रार्थना

बाझ करि बाझारा — डे सुमति तूं साईं।
सचु-दया-धर्म — ऐं नेकी ते हलाईं॥

उथन्दे विहन्दे तोखे न भुलजूं — शुक्र करियूं हर वक़्त।
पोइ माउ-पीउ-गुरुजन जी — सेवा करियूं हर वक़्त॥
दीन हीन हुजे कोई — करियूं मदद उनजी सदाईं।
बाझ करि बाझारा — डे सुमति तूं साईं।

निहठा सदा थी हलूं — भले हुजन बंगला मारियूं।
मुसीबतन खे मुंहं डियूं — भले हुजन लहवारियूं॥
डे हिमथ सदा-कर महर मया-गुसाईं।
बाझ करि बाझारा — डे सुमति तूं साईं।

हर धर्म ज़ाति खे असीं — इज्ज़त डीन्दा हलूं।
देश प्रेम लाइ असीं — कुरबानी डीन्दा हलूं॥
हुजे देश जो को गद्दार—"आशाशील" करियूं उनजी तबाही।

बाझ करि बाझारा — डे सुमति तूं साईं।
सचु-दया-धर्म ऐं नेकी ते हलाईं॥

रंगीलो

हिन रंगीले जो राज़ु — कहिं न पातो आ।
हिन जी लठि जो आवाज़ु — कहिं न सुञातो आ॥

खिन में खिलाए — खिन में रुलाए।
पल में चाढ़े — पल में लाहे॥
हिन जी शक्ति जो राज़ु — कहिं न समुझियो आ।
हिन जी लठि जो आवाज़ु — कहिं न सुञातो आ॥

भले केतरा भी — तूं हीला हलाईं।
करे कोशिशूं भली — तूं महल ठाहीं॥
हिन जे ठाहिण - डाहिण जो - कमाल कहिं न ॼातो आ।
हिन जी लठि जो आवाज़ु — कहिं न सुञातो आ॥

हिन जा कई नाला — आहिनि दुनियां में।
हिन जा अनेक रूप — आहिनि जॻत में॥
अचे कहिड़े वेस में — कहिंसां कहिड़ो नातो आ।
हिन जी लठि जो आवाज़ु— कहिं न सुञातो आ॥

आखे "आशाशील"—चेति—हींअर भी तूं भाई।
छॾि कूड़ु - कपटु- छलु - ऐं ॾिंगाई॥
रंगीले जे ॻुझ खे — कहिं न ॼातो आ।
हिन जी लठि जो आवाज़ु—कहिं न सुञातो आ॥
हिन रंगीले जो—राज़ु कहिं न पातो आ॥

रबु

जिते राज़ी — रहे रबु।
उते पूरा थियनि — कम सभु॥
जिते नाराज़ — थिये रबु॥
उते उबता थियनि — कम सभु॥

रबु रहे राज़ी,
त छा कन्दो काज़ी।
रबु करे — जे ज़ीरो,
त रोशनी मां — थिये अन्धेरो॥

जे यार — रबु रुसे,
त सभु — कुछ खसे।
जे यार — रबु रहे खुशु,
त पूरी करे — ख्वाहिश॥

ए बन्दा! डिॼन्दो रहु — रब खां,
छॾे ग़रूरु — प्रेम रखु सभ खां।
रबु रहे — ग़रीबन जे दिल में,
न ॻोल्हि रब खे — मन्दिर में॥

"आशाशील" जी — मञु ॻाल्हि हीअ बन्दा,
छॾि कूड़ कपट— ऐं कम गन्दा।
सच ते हली — खाउ फल मिठा,
रबु रहन्दो राज़ी — तुंहिंजे मथां सदा॥

पहरेदारु

मनु आ चंचल मुंहिंजो — थिजाईं खबरदार।
किथे फिसिलजी न वञे — पकड़ जाईं पहरेदार॥

दिमाग़ में अचनि वञनि थियूं — कई छोलियूं।
बुरा विचार — कनि था — अलोलियूं॥
हणी लठि इन्हनि खे — भज॒ाए चौकीदार।
मनु आ चंचल मुंहिंजो — थिजाईं खबरदार॥

मनु कपट करे — थो कूड़ ग॒ाल्हाए।
हथनि पेरनि सां थो — गन्दा कम कराए॥
हणी गोली इन्हनि खे — पहुचाए सुर्ग॒ द्वार।
मनु आ चंचल मुंहिंजो — थिजाईं खबरदार॥

तुंहिंजो मां प्यारा — अहिसानमन्द थियां।
छड॒ाए बुरायुनि खां मूंखे — नालो रोशन करियां॥
अची थीउ "आशाशील" जो — तूं रखपाल।
मनु आ चंचल मुंहिंजो — थिजाईं खबरदार॥
किथे फिसिलजी न वञे — पकड़ जाईं पहरेदार॥

आरज़ू

बिना चरण धोए श्री राम—बेड़ीअ में न चाढ़ीन्दुसि।
उद॒ामी वेई जे मुंहिंजी कश्ती—त ब॒ार कीअं मां पालीन्दुसि॥

तुंहिंजे पेरनि में — अल्हाजे कहिड़ो जादू आहे।
पत्थर खे छुहन्दे — हुअ स्त्री बणी आहे॥
भले सज़ा ड॒ियो —पर कश्ती में — मूर न विहारिन्दुसि।
बिना चरण धोए श्री राम—ब॒ेड़ीअ में न चाढ़ीन्दुसि॥

मां गरीब मांझी — रोज़ हिन ब॒ेड़ीअ मां पेटु भरियां।
हीउ पत्थर खां कोमल — कीअं तव्हांते विश्वास करियां॥
दया करि मूं ग़रीब ते — चरण मां ज़रूर धुअन्दुसि।
बिना चरण धोए श्री राम—ब॒ेड़ीअ में न चाढ़ीन्दुसि॥

ड॒िसी भग॒त जी भावना — ड॒िना पेर भग॒वान वधाये।
वड॒ी श्रद्धा ऐं प्रेम सां — पियो केवट उन खे धोए॥
"चढ़ो" ब॒ेड़ीअ में हे प्रभु — हाणु मां नदी पार कराइन्दुसि।
बिना चरण धोए श्री राम — ब॒ेड़ीअ में न चाढ़ीन्दुसि॥

पार उकरी प्रभुअ — ड॒िनी मुन्दरी केवट खे।
न वठी अंगूठी — मल्हार — चयो हे प्रभु॥
अंज॒ु मूं उकारियो "आशाशील" सुभाणे मूंखे बि पार उकारिजि।
बिना चरण धोए श्री राम—ब॒ेड़ीअ में न चाढ़ीन्दुसि॥

नियापो

ॾिसी अंगूठी श्री राम जी – सीता दर्शन कयो।
आयो साम्हूं हनुमान – जहिं सॼो हाल वर्णन कयो॥

चयो सीता "पवनपुत्र" – रावण कयो आ मूंसां धोखो।
बणिजी साधु वेस में – हुन मुंहिंजो आ हरण कयो॥
ॾिसु ब्राह्मण पंडित बि – कन्दा इएं धोखेबाज़ी।
कींअ प्रजा विश्वास कन्दी – ऐं रहन्दी राज़ी॥
अशोक वाटिका में बन्दी थी – करियां इन्तजार राम जो।
ॾिसी अंगूठी श्री राम जी – सीता दर्शन कयो।

चउ वञी श्री राम खे – सीता हर पल थी रोए।
रोटी पाणी विसरी वेई – थी तोखे याद करे॥
हाणु जल्द अची – रावण खां मूंखे छॾाए।
ॾेई सत फेड़ा पत्नि बणायई – हाणु नातो अची निभाए॥
ॾीन्दीसाईं दुआऊं तोखे – दुख दर्दु आ तोखे ॿधायो।
ॾिसी अंगूठी श्री राम जी – सीता दर्शन कयो।

चयो हनुमान–"माता" – जल्दु ईन्दो श्री राम।
रावण - कुम्भ करण खे मारे – कन्दो पंहिंजो नाउं॥
करि आसीस माता – लंका जो मां दहन करियां।
साड़े सॼी लंका खे – रावण खे मां सबक सेखारियां॥
मोकलाए "आशाशील" हनुमान पंहिंजो वचन निभायो।
ॾिसी अंगूठी श्री राम जी – सीता दर्शन कयो।
आयो साम्हूं हनुमान – जंहिं सॼो हाल वर्णन कयो॥

पैग़ाम

ऊधो! वञी मथुरा — ॾिजांइ पैग़ाम।
बंसरी रोए—राधा रोए—तुंहिंजी याद में हे श्याम॥

ॾिसु जमुना किनारो — गोप ग्वालो।
ग़ायुनि ऐं गोपियुनि — जो राड़ो॥
सुॾिका भरे भरे—पुकारीनि पयूं घनश्याम।
ऊधो! वञी मथुरा — ॾिजांइ पैग़ाम।

पाणी बिन मछली—जियां तड़फां थी मां।
अखिड़ियुनि आब — सुकी विया मुंहिंजा॥
निंड न थी अचे मूंखे — सुबुह ऐं शाम।
ऊधो! वञी मथुरा — ॾिजांइ पैग़ाम।

ऊधो! ॾिजां वञी — नियापो कन्हाई।
तुंहिंजी याद में तड़फां—पेई—कर न हाणु ॾाढाई॥
प्रेम ॾिसी "आशाशील" — ऊधो थियो परेशान।
ऊधो! वञी मथुरा — ॾिजांइ पैग़ाम।
बंसरी रोए—राधा रोए—तुंहिंजी याद में हे श्याम॥

"ॾोरापो"

हे ऊधो! वञी कन्हैये खे — ॾिजांइ नियापो।
यशोदा माटेली माउ हुई — ॾिजांसि ॾोरापो॥

'नन्ढपण' में नटखट हुएं — खांइन्दो हुएं चोरी मिट्टी।
ॿधो मांइ ओखली सां — वियें तूं छुटी॥
शायद वैल कयमि तोसां — तॾहिं वयो आहीं रुसी।
काश ॼाण हुजेमि हा इहा— त न करियां हा नाराज़पो॥
हे ऊधो! वञी कन्हैये खे — ॾिजांइ नियापो।

गोपियूं रोजु खणी ईद॒यूं हुयूं — तुंहिंजी शिकवा।
चे! तुंहिंजो कृष्ण — भञे — असांजा थो मटका॥
ज़ोरीअ खाई मखणु — पोइ करे थो नखरा।
कींअं भुलायां उहे ॾींहं — जॾहिं कान्हा हो रुसन्दो॥
हे ऊधो! वञी कन्हैये खे — ॾिजांइ नियापो।

ऊधो! ॾिसु नन्द बाबा —जो हीउ आहे हाल।
खाये नथो रोटी — करे रोज़ थो इन्तज़ार॥
गोप-ग्वाला-गोकुल वासी — हाणु आहिनि बेज़ारु।
ॾिसी "आशाशील" हीउ प्यार— ऊधो सुॾिका भरींदो रहियो॥
हे ऊधो! वञी कन्हैये खे — ॾिजांइ नियापो।

देश प्रेम

हीउ आहे असांजो — देश हिन्दुस्तान।

1. शिवा, प्रताप, दि॒नो सिर हिन लाइ।
पृथ्वीराज, दा॒हिर सेन थिया — कुरबान हिन लाइ॥
लक्ष्मीबा॒ई, भग॒त सिंग, हेमू कालाणी — बि थिया कुरबान॥
हीउ आहे ....

2. दयानन्द, विवेकानन्द — बि खूब धूम मचाई।
दे॒ई उपदेश सभखे — हिन्दू धर्म बचाई॥
गांधी, सुभाष बि देश — आज़ाद कराई।
बिना डप जे — थिया देश मथां ब॒लिदान॥
हीउ आहे ....

3. हिन देश खे रखजो — सम्भाले दोस्तो।
कजो तन मन धन सां — सेवा हिन जी दोस्तो॥
"आशाशील" दुशमननि खां — बचाए रखिजो दोस्तो।
जीअं देश थिये — असां ते महरबान॥
हीउ आहे ....

फ़ौजी

फ़ौजी! तुंहिंजो— कहिड़ो करियां बखानु।
आहे तुंहिंजो फेहिलियलु — दुनियां में शानु॥

गर्मी सर्दी — बरसात में — देश जी रक्षा करीं थो।
अचे जे दुश्मन काहे — सन्दसि मुंहुं टोड़ीं थो॥
गद्धारनि जो सिर लाहे — थीं थो तूं महान।
फ़ौजी! तुंहिंजो— कहिड़ो करियां बखानु।

देश में ब॒ोड॒ूं अचनि — हर दम हाज़िरु आहीं।
दंगा — फसादनि में हर दम — शान्ति थो कराईं॥
न ड॒िसीं रिश्तो नातो — पालीं सदा फ़रज़ानु।
फ़ौजी! तुंहिंजो— कहिड़ो करियां बखानु।

विछड़ी माउ पीउ ज़ाल ऐं ब॒ारनि खां।
ड॒ाहिर — प्रताप वांगरु — लड़ीं थो दुशमननि सां॥
"आशाशील" शल वधीं — ऐं थीं तूं सदा ब॒लवान।
फ़ौजी! तुंहिंजो— कहिड़ो करियां बखानु॥
आहे तुंहिंजो फेहिलियलु — दुनियां में शानु॥

सिन्धी रतन

1. केर चवे थो — त सिन्ध में।
'सिन्धी रतन' — पैदा न थिया॥

2. जींअ हिते राम, श्याम — अवतार वरतो।
तींअ उते भग॒वान — झूलेलाल भी प्रगट थियो॥

3. जींअं हिते भग॒त—ध्रुव-प्रहलाद पैदा थियो।
तींअं उते भग॒त—कंवरराम भी जनमु वरितो॥

4. जींअ हिते सूर, तुलसी — उपदेश दि॒नो।
तींअं उते 'लीलाशाह' 'टेंऊराम' बि सद उपदेश दि॒नो॥

5. जींअ हिते शूरवीर राणा, शिवा — शत्रुन सां लड़ियो।
तींअं उते राजा दा॒हिर सेन बि—दुशमननि सां टकरियो॥

6. जींअं हिते भग॒त सिंग, आज़ाद—देश लाइ शहीद थियो।
तींअं उते "आशाशील" हेमू कालानी बि फांसीअ ते लटकियो॥

कायम रहे सिन्धी ब॒ोली

रहे कायम सिन्धी— सिन्धियन जी हीउ ब॒ोली।
अहिड़ो न कजो कम — करे जग॒ु ठठोली॥

1. महनत करे तूं — पहिड़ियूं नम्बर आणीं।
हिम्मत करे नालो — माइटन जो चाढ़ीं॥
बुरे संग जो — न थिज हमजोली।
रहे कायम ....

2. रान्दियन में तूं — वक्त न विञाइज।
पढ़ी लिखी तूं — वद॒ो पद पाइज।
प्रेम ऐं गुणन जी — पाइज चोली।
रहे कायम ....

3. वद॒ा कम करे — थीउ जग॒ जो सितारो।
वधांए हिन्द जी शान — थिजां तूं प्यारो॥
कजां अवगुणन जी — पंहिंजो पाण होली।
रहे कायम ....

4. कजां देश सेवा — थिजां 'द॒ाहिर-राणो'।
चाहे सभु हली वञे — ना हुजे नाणो॥
अघाये धणी शाल — "आशाशील" जी हीउ ब॒ोली।
रहे कायम ....

सिन्धियन जो शान

1. सिन्धीअ जो मतलब — आहे ‘व्यापारी’।
रात ॾींहं व्यापार जो ई — सोच अथन॥

2. सिन्धीअ जो मतलब — आहे ‘इज्ज़त’।
इज्ज़त बचाइण लाइ ई — सिन्ध छॾियाऊं॥

3. सिन्धीअ जो मतलब — आहे ‘दानवीर’।
गऊशाला धर्मशाला—अस्पतालूं ठहरायाऊं॥

4. सिन्धीअ जो मतलब — आहे ‘एकता’।
स्कूल पंचायतूं जोड़े—हिकमत थी विया आहिनि॥

5. चवे “आशाशील” हे भाउरो।
आहे ॾाहिर सेन, कालाणी,
लीलाशाह — बि सिन्धियन जो शान॥

कवि ऐं कविता

कवि आहे चण्डु — त कविता आहे चाण्डोकी।
अंधेरे में रोशनी करे — वाटहरुन खे थी वाट ड॒ेखारे॥

कवि आहे बग़ीचो — त कविता आ गुल जी सुरहाणु।
हिननि जी महक — हर दिल खे थी ठारे॥

कवि आहे साज़ु — त कविता आहे आवाज़ु।
दुखी दिलियनु खे — हर वक़्त थी संवारे॥

कवि आहे दिल — त कविता आहे धड़कन।
धक धक करे — मुरदन खे थी जियारे॥

कवि आहे कोयल — त कविता आ मिठड़ी कूक।
ब॒ुधे जेको इंसान — करे उहो थो वाह वाह रे॥

कवि आहे ककर — त कविता आहे मींहुं।
तापश में थधाणि आणे— सुके में सावक थी करे॥

कवि आ जंगे मैदान — त कविता आ वीर रस।
बुज़दिल जवानन खे थी — जंग लाइ ललकारे॥

शाह, सचल, स्वामी जहिड़ा बि — थिया आहिन कवि।
जिन सच्चे इश्क ऐं भग॒ति खे — पंहिंजे रंग में रंगयो आहे॥

ओ पाठको! रवि खां — वड॒ो आहे कवि।
जेको हर कुण्ड कड़छ में "आशाशील",
कविताऊं ठाहे ऐं पियो ग॒ाये॥

वक़्तु

वक़्त खे कंहिं — सुजातो आ इन्सान।
वक़्तु आ सभु खां — वॾो ॿलवान।
बन्दा! कर वक़्त खे — सदा प्रणाम॥

वक़्त रंक खे — राजा थो बणाए।
पल भर में वक़्त — राजा खे रंक थो ठाहे॥
पोइ बन्दा! छो थो — करीं तूं अभिमान।
बन्दा! करि वक़्त खे — सदा सलाम॥
वक़्त खे कंहिं सुञातो आ इन्सान॥

वक़्त दोस्त खे — थो दुश्मन बणाए।
वक़्त पराये खे — थो पंहिंजो ठाहे॥
वक़्त सां हलन्दो — रहु — तूं इन्सान।
बन्दा! करि वक़्त खे — सदा प्रणाम॥

ॾाहरसेन वक़्त सां — सिर कुरबान कयो।
सिन्धियन वक़्त सर — सिन्ध खे छॾियो॥
वक़्त खे मुंह ॾेई — रखियाऊं पंहिंजो शान।
बन्दा! करि वक़्त खे — सदा प्रणाम॥

धरती धुॿे कहिं वक़्त — महल माड़ियूं डहनि।
किस्मत खुले वक़्तिसर — झोपड़ीं मां महल ठहनि॥
"आशाशील" जो आहे सदा — रखिवालो भॻवान।
बन्दा! करि वक़्त खे — सदा प्रणाम॥

अज॒ु जूं नाऱियूं

अज॒ु जी नारियन में — को प्यार न आहे।
पतीअ जी सेवा लाइ— "आशाशील" को त्यार न आहे॥

1. हुई 'अनुसिया' जंहिं हुआ — पति लाइ पैर जलाया।
पर न पती खां — वेई — पाण छद॒ाए॥

2. हुई 'सीता' — रावण जे पंजे में।
कयाईं थे याद 'राम' — सत खे बचाए॥

3. हुई 'उमा' जा वेई पिता जे यज्ञ में।
ब॒धी पति 'शिव' जी गिला — छडि॒याईं पाण जलाए॥

4.हुई 'सावित्री' जंहिं — 'सत्यवान' हो बचायो।
आई वचन वठी — 'यम' खे भज॒ाए॥

'गुल'

गुल! तुंहिंजी — कहिड़ी करियां मां बात।
तं कम अचीं सभु जे — ॾींहं ऐं रात॥

मतलबी माल्ही — मुखड़ीअ मां — तोखे गुल थो बनाए।
हिक धाॻे में पिरोए — माल्हा थो ठाहे॥
पोइ विकणे थो वञीं — तोखे बाज़ार।
तूं कम अचीं सभु जे — ॾींहं ऐं रात॥

जेसताई तूं आहीं — पंहिंजी शाख ते।
टिड़ी खिली थो —पंहिंजी साख़ ते॥
भॻत - ठॻत पाइन था — तुंहिंजा हार।
तूं कम अचीं सभु जे — ॾींह ऐं रात॥

हर रंग ऐं खुशबू में — तूं मिलीं थो।
नेता, अभिनेता, भॻवान, शैतान— जो मानु वधाईं थो॥
हुजे चाहे धर्मी — या हुजे गुनहगार।
तूं कम अचीं सभु जे — ॾींहं ऐं रात॥

काश तोखे इहा — परख हुजे हा।
कपटी कूरे जे गले में — मुरझाइजी वञी हा॥
भले हू कुकर्मन ते — थियन वञीं हा ख़्वार॥
तूं कम अचीं सभु जे — ॾींहं ऐं रात॥

शहीदनि जी तूं वञीं — शोभा वधाए।
देश भॻतन खे "आशाशील" — वञीं गले लॻाए॥
शल खत्म न थिये — तुंहिंजो हीउ हुॻाऊ।
तूं कम अचीं सभु जे — ॾींहं ऐं रात॥

'कुदरत'

वाह वाह! तुंहिंजा — कुदरती नज़ारा।
ॾिसन्दे लॻन — सभु प्यारा प्यारा॥

जबलन मां तुंहिंजे — झरना वहन था।
बौछार करे पोइ — समुण्ड ठहन था॥
जीव जन्तु रहन — सभु उन में साह वारा।
वाह वाह! तुंहिंजा — कुदरती नज़ारा।

चमन में रंग बिरंगी — गुल थो खिलाईं।
गुलाब-मीतीअ में — महक थो पाई॥
भूं भूं कनि उनते — भौंरा प्यारा प्यारा।
वाह वाह! तुंहिंजा — कुदरती नज़ारा॥

बाग़न में बि — फल थो रचाईं।
अम्ब-अनार-सन्तरे — जा मज़ा थो वठाईं॥
केर न साराहे — तोखे दुलारा।
वाह वाह! तुंहिंजा — कुदरती नज़ारा॥

"आशाशील" कहिड़ी — साराह करियां तुंहिंजी।
सिज, चण्ड, तारन में बि — महर आ तुंहिंजी॥
सिखे इन्सान तो मां — ओ कुदरत वारा।
वाह वाह! तुंहिंजा — कुदरती नज़ारा।
ॾिसन्दे लॻन — सभु प्यारा प्यारा॥

"धरती"

ॿिनि सिंङन ते तूं — बीठी आहीं धरती।
करोड़न जो बार — सही वेठी ओ धरती॥

तो जहिड़ी शांति — ॾिठी न मूं माता।
तुंहिंजी किस्मत — कहिं ठाही आ विधाता॥
इन्सान हैवान बि — ॿार आहिन तुंहिंजा ओ धरती॥
करोड़न जो बार — सही वेठी ओ धरती॥

राम कृष्ण जिन भी — अवतार वरतो हिते।
रावण-कंस जहिड़ा राजा — बि ॼावा आहिन हिते॥
देवताउन मारे राकासन खे — कयो उद्धार ओ धरती।
करोड़न जो बार — सही वेठी ओ धरती॥

बाल्मीक, करलीदास, टेंऊराम बि पैदा थिया हिते।
पंहिंजी कविताउन खे — रचियाऊं हिते॥
ध्रुव, प्रहलाद, लीलाशाह — रोशनी डिनी -हिते-ओ धरती।
करोड़न जो बार — सही वेठी ओ धरती॥

राणा , शिवा, ॾाहिर सेन बि शत्रुन सां लड़िया हिते।
सीता, सावित्री, अनुसुया बि ॼायूं आहिन हिते॥
ॼमे हिते वरी का सती — ओ धरती।
करोड़न जो बार — सही वेठी ओ धरती॥

अॼ चइनी तरफन — हा हा कार मची रहियो आहे।
मुफलँसी, सीना जोरी — अत्याचार वधी रहियो आहे॥
वरी को पैदाकर "आशाशील" — 'झूलेलाल' ओ धरती।
करोड़न जो बार — सही वेठी ओ धरती॥

इन्सान

आहिन ब॒िन तरह जा — हिते इन्सान।
हिकु आहे शरीफ़ — त ब॒ियो आहे शैतान॥

भग॒तु पंहिंजी भग॒तीअ सां — रखे खुश सभखें।
ठग॒तु पंहिंजी ठग॒ीअ सां — थो फुरे सभखें॥
छो न हुजे ठग॒त जे — साम्हूं भग॒वान।
आहिन ब॒िन तरह जा — हिते इन्सान।

हिकु आहे देवता — जो भलो करे जग॒ जो।
ब॒ियो आहे दानव — जो बुरो करे जग॒ जो॥
नाहे दया दानव में — चाहे माण्हूं थियन परेशान।
आहिन ब॒िन तरह जा — हिते इन्सान।

शाहूकार हर वक़्त — थो मौज करे ।
गरीब महिनत करे बि — थो फाका कढे॥
सोचु आहे गरीब खे — ऐश करे थो धनवान।
आहिन ब॒िन तरह जा — हिते इन्सान।

हीअ दुनियां कहिड़ी आ — शरीफ खे कोई न पुछे।
चालाक माण्हूं लाइ — हर को थो लुछे॥
कलयुग आहे "आशाशील" — न कर को अरमान।
आहिन ब॒िन तरह जा — हिते इन्सान।
हिक आहे शरीफ — त ब॒ियो आहे शैतान॥

"मुसाफिर"

ओ मुसाफिर! तूं हलन्दो हलु।
चाहे राहूं — हुजनि अड़ांगियूं,
त बि विख — वधाईन्दो हलु॥

रस्ते में ईन्दइ — घणेई खड॒ा खुबा,
बरपट -झंगल ऐं —कन्डा।
कोई न मिलन्दई — संगी साथी,
हिम्मत सां वाट — निहारीन्दो हलु॥
ओ मुसाफिर! तूं हलन्दो हलु।

वाट ते मिलन्दई — फोरु लुटेरा,
लग॒न्दई सुठा — सिधा संवारा।
करे दोस्ती — कन्दई बदहाल,
अहिड़नि खां पाणु — बचाईन्दो हलु॥
ओ मुसाफिर! तूं हलन्दो हलु।

समझ, हिम्मत रूपी — लठि रखु साणु,
करे को गुस्ताखी — उनखे पहिचाणु।
मूरख मतलबी खां — बचाए पाणु,
"आशाशील" चवे — पाण खे संभालीन्दो हलु॥
ओ मुसाफिर! तूं हलन्दो हलु।
चाहे राहूं — हुजनि अड़ांगियूं,
त बि विख — वधाईन्दो हलु॥

"बालकु"

1. हीउ कंहिंजो — बालकु आ।
चिथिड़ियल कपड़ा — उघारा पेर॥
पियो पट तां पनियू गोल्हे।
ऐं पियो कागर बटोरे॥

छा कंहिं शराबीअ जो — बार आ।
या कंहिं जुआरीअ जो — गुलज़ार आ॥
जंहिं पंहिंजी सजी मिलकियत।
शराब पीअण ऐं जुआ खेलण॥
में ई चट कई आ।

2. हीउ कंहिं जो बार आ,
बिगड़ियल वार — कमज़ोर बदन।
पियो पिने — गिर गिड़ाए,
कडहिं थाबड़जे — कडहिं रोटी लाइ थो बाडाए॥

छा कंहिं हरामखोर जी — सन्तान आ,
जेको कमु न करे — घर वेठो खाए।
लुचन लुफंगन जी — यारीअ में वेठो आहे,
पंहिंजे बारन खे — पिनण लाइ — मोकले रहयो आहे॥

3. आखिर हिननि बारन जो — छा थींदो,
छा हीउ सुभाष गांधी — हेमू कालाणी थींदा?
या देश जा गद्दार — ऐं आतंकवादी थींदा?
बचायो हिननि बारन खे बचायो,
गोद खणी हिनन — बारन खे संवारियो।
इहो अर्ज़ु "आशाशील" जो अघायो॥

“ बु॒ढड़ो ”

ए बु॒ढड़ा! कंहिं कयो — तुंहिंजो हीउ हाल।
हलण खां हलाखु — कींअं बिगड़ी तुंहिंजी चाल॥

नन्ढपण विञायइ — लुचाईअ में,
जवानी विञायइ — बद चलन में।
माइटन खे धिके — कयईं घर खां धार॥
ए बु॒ढड़ा! कंहिं कयो — तुंहिंजो हीउ हाल..

शादीअ खां पोइ—पुटनि जे चक्कर में,
गर्भ में ई—धीअरनि खे मारायईं।
अजु॒ पुटनि—नूहरनि—तोखे कयो आ नेकाल॥
ए बु॒ढड़ा! कंहिं कयो — तुंहिंजो हीउ हाल..

डे॒ई सजी॒ मिलकियत पुटन खे — नंगो थी वियें,
कमायई कूर कपट सां — दर बदर थी वियें।
कयई न कड॒हिं दान पुञ—अजु॒ थी वियो आहीं फटे हाल॥
ए बु॒ढड़ा! कंहिं कयो — तुंहिंजो हीउ हाल।

रग॒न जी ताकत चेई — इहा पीढ़ी आ,
थियाकन बो॒ड़ा — वेहा पीढ़ी आ।
चवे “आशाशील” वञु — शरण प्रभुअ जे द्वार॥
ए बु॒ढड़ा! कंहिं कयो — तुंहिंजो हीउ हाल।

"पैसो"

ॾिसो पैसे जा रंग

कंहिंखे थो रुलाये — त कंहिंखे थो खिलाये।
कंहिंखे रंक — त कंहिंखे थो राजा बणाये॥
नशो चढ़े पैसे सां — बिना पीतल भंग।
ॾिसो पैसे जा रंग॥

किथे मार काट कराये — त किथे प्यार मोहबत।
किथे ऐब कराये — त किथे सुठी सोहबत॥
चमत्कार खे नमस्कार आहे — छो न चढ़े रंग।
ॾिसो पैसे जा रंग॥

किथे डालर चवाराये — त किथे रुपयो।
पुटु बि पैसो पीउ बि पैसो — ॻाल्हाइण बिआ पैसो॥
पेसूअ मां पेसू राम थिये — जे पैसे जो थिये संग।
ॾिसो पैसे जा रंग॥

ॾियारीअ ते लक्ष्मी पूॼा — थिये थी हिक ॾींहं।
धन-दौलत पैसे जी पूॼा — थिये रोज़ रात ॾींहं॥
"आशाशील" चाहे कूर ॻाल्हाए— चाहे कर वेठो सत्संग।
ॾिसो पैसे जा रंग॥

"जलन"

हर शै खे — ऊंचो डि॒सी,
मूंखे छो थिये — थी जलन?

वियसु हिक शादीअ में — डि॒सी डा॒जो ड॒की वियसि।
मूंखे मिलिया कुछ हजार — हुन खे मिलिया लखें॥
छो पेई वधे हर हर — मुंहिंजे दिल जी धड़कन।
हर शै खे — ऊंचो डि॒सी॥

मुंहिंजे भरिसां कंहिं — मूं जहिड़ो खोलियो दुकान।
मुंहिंजे धंधे खां वधीक — उन जो धंधो हो आलीशान॥
इहो डि॒सी मूंखे — छो थी थिये जलन।
हर शै खे — ऊंचो डि॒सी॥

खबर अथमि हीउ सभु कुछ — पल भर जो आहे।
वरी बि आदत खां — दिल मजबूर आहे॥
छा करियां - मूंखे — हर हर था पूर पवनि।
हर शै खे — ऊंचो डि॒सी॥

हुजे हा गैस सां — जे सीने में जलन।
ठीक थियण लाइ — खणी दवाऊं वठिजनि॥
ब॒धायो "आशाशील" जो — कींअ ठीक थिये हीउ मन?
हर शै खे — ऊंचो डि॒सी,
मूंखे छो थिये थी जलन॥

“ससुई पुन्हु”

पंहिंजो थी वियो — प्रीत फिटाए।
परदेशी वियो मूंखे — रण में रुलाए॥

1. मूं न जातो को — प्यार आ थींदो बुरो,
दिल जी धड़कन जो — हाल थींदो कहिड़ो।
वेठसि संग दिल सां — मां अखिड़यू लड़ाए॥
परदेशी वियो मूंखे........

2. कल न हुयम मूंखे — का प्रीत करण जी,
हार खे समझियम मूं — जीत मिलण जी।
कांध छदियो हाय — मूंखे भुलाए॥
परदेशी वियो मूंखे.........

3. ओ ‘पुनहल’ तो बिन — मुंहिंजो जीअंण आ कहिड़ो,
खाधो पीतो थियो — मूं लाइ ज़हर जहिड़ो।
“आशाशील” ससुई — रोई रोई पुकारे,
परदेशी वियो मूंखे.............

"उमर मारुई"

खुश हुजी ओ उमर — हीउ दुआ आ मुंहिंजी।
कहड़ी दियां बद्दुआ — ना ख़ता आ तुंहिंजी॥

1. जे मां जांणां हा पाप — आ पाणी प्यारण।
धर्म जी ओट में — कन्दे मुंहिंजो तूं हरण॥
कहर ना करेई कादरु — इल्तजा आ मुंहिंजी।
खुश हुजीं ....

2. ख़लक चवन्दी रहन्दी — राणा कासाई आहिन।
ग़िला ग़ैबत हणन्दी — राजा डाढाई था कनि॥
छडे दे तूं पचर — कर वफ़ा तूं पंहिंजी,
खुश हुजीं ....

3. भाऊ मूं तोखे कयो — हाणु त समझ उमर।
कींउ भाऊ भेणु सां — कन्दो शादी मगर॥
"आशाशील" शरण — उमर आंहियां तुंहिंजी
खुश हुजीं ....

"ससुई पुन्हु"

काथे गो॒ल्हियां — तोखे सज॒ण,
दु॒खिया पंध पहाड़ जा — काबुल ऐं कंधार जा।
डो॒ह कयो — मुंहिंजे डे॒रन,
नाहे उन्हनि जी मयार का — किस्मत जी कटार जा॥

1. सुमिहियल हुयसि — तुंहिजे भरि में,
अची वेई — निंड निभागी॒।
बिगड़ी किस्मत — मुंहिंजी जड॒हिं,
सुबह जो हाय — थी सुजागी॒॥
काथे ....

2. पुछन्दी रहां मां — पथर दु॒ंगर,
मुंहिंजो साजन — काथे दि॒ठव।
पेरन में — पथरन एं कंडन,
रत जा रेला — करे छडि॒या॥
काथे ....

3. मारी मारी — फिरन्दी रहां मां,
'पुनहल' — तुंहिंजे प्यार में।
"आशाशील" रुअन्दी रहन्दी,
पहुचां तुंहिंजे — माग॒ में॥
काथे ....

"चोॾसि जो चण्डु"

चोॾसि जो चण्डु आहीं,
या खीरणी में – खंड आहीं।
जो कुछ भी आं – मुंहिंजी सनम,
तूं गुलन में – सुॻंध आहीं।
चोदसि जो ....

1. अखड़ियूं तुंहिंजू प्यारियूं,
जीअं शराब जूं प्यालियूं।
तुंहिंजा ज़ुल्फ अहिड़ा,
जीअं ककर आहिन कारा॥
ॿेड़ीय वांगर लुॾन पियूं,
तुंहिंजे कनन जूं वालियूं।
चोॾसि जो..........

2. सुन्दर – तुंहिंजो मुखड़ो,
जीअं सूरजमुखी – जो गुलड़ो।
तुंहिंजी मिठड़ी ॿोली,
जीअं कोयल जी अलोली॥
कीअं रीझांयां तोखे सनम,
तूं आं "आशाशील" जी राणी।
चोॾसि जो ....

"सच्चो प्यार"

मुंहिंजे गीतन जी तूं आं तार,
रहन्दो अमर — "आशाशील" जो प्यार।

1. मुंहिंजे दिल में — रहिज तूं सदा,
मुंहिंजी अखियन खां — न थिज जुदा।
मुंहिंजी मुहबत खे — सच्चो करे,
दुनिया खे तूं — जलवो ॾेखार॥
रहन्दो अमर...........

2. न हले तन्दुन बिना — जीअं हीउ साज़ु,
रहिन्दो तो बिना — बन्द हीउ आवाज़।
साज़ सां गॾु — सज़े जींअं गीत,
रंहिंजा सुख दुख में — तीअं तूं तैयार॥
रहिन्दो अमर ....
3. तो बिना —कीअं रहन्दुस मां,
चाहे ठुकराए — मूंखे हीअ दुनियां।
"आशाशील" जो — साथ रहन्दो सदा,
खणी मिटाए मूंखे — जे कलतार॥
रहन्दो अमर ....

"साक़ी"

साक़ी! तोसां मोहबत — मां कीअं करियां?
मुंहिंजे दिल में आ — महबूब हिकड़ो।
ब॒ी दिलि में — कीअं धरियां?

तुंहिंजा विंग आहिनि — वासींज वांगुरु,
हुनु जा गेसू आहिन — जींअ कारा ककर।
तुंहिंजी ग॒िची आ — थम्भे वांगुरु,
हुन जी गरदन आ — जीअं गुलन जी टारी॥
पोइ साक़ी! हुन खे — मां कीअं वेसारियां,
साक़ी! तो सां मोहब्बत — मां कीअं करियां?

तुंहिंजूं अखियूं आहिनि — जीअं मय जूं प्यालियूं,
हुन जा नूर पसिजनि — जण॒ वहन्दड़ झरनो।
तूं सजाईं थी — पाण खे हर हर,
हूअ चमके जीअं — चन्द्र जी चाण्डाणि॥
पोइ साक़ी हुन खे छड॒े — "आशाशील",
तो सां कीअं — नींह लग॒ाया॥

साक़ी! तोसां मोहबत — मां की करियां?
मुंहिंजे दिल में आ — महबूब हिकड़ो।
ब॒ी दिलि में — कीअं धरियां?

"जीवन साथी"

तो बिन मुंहिंजो — केर सहारो।
जीवन साथी बि तूं मीत भी तूं,
द॒िनई सदा तो ई — दिलदारो॥

1. केड॒ियूं न आयूं मुसीबतूं,
एं मुशिकलातिनु जूं छोलियूं।
द॒ेई हिम्मत — सजनी मूंखे,
तो सभु खे — पार लग॒ायो॥
तो बिन...........

2. सुख ईन्दा — दुख वेन्दा,
कड॒हिं न पंहिंजा — दुखड़ा रहन्दा।
द॒ेई उपदेश — गुरून वांगर,
हर हर तो — समझायो॥
तो बिन ....

3. प्यार "आशाशील" जो,
रहन्दो अमर सदा।
मालिक महरबान थीन्दो,
विश्वास रखु — तोई ब॒ुधायो॥
तो बिन ....

"सजनी"

तोखे किथे गोल्हियां — दर दर मां भिटिकां,
तुंहिंजे बिना — लग॒े सुञो जहान।

1. तुंहिंजे बिना — फिकी लग॒े चान्दनी।
मुंहिंजे गीतन खे — छड॒े वईंय राणी॥
जान तन में आ — पर मन बेज़ार आ।
हुई आवाज़ बाकी — सभु सुनसान आ॥
तुंहिंजे बिना ....

2. मुंहिंजे दिल जे तन्दुन जी — हुईंअ तूं तार।
मुंहिंजे अखियन जे आंसुन जी — हुईंअ तूं बौशार।
अज॒ तन्दुन बिना — सुर नथो सजे।
ब॒धाए गीतन बिना — कींअ जीवन हले॥
तुंहिंजे बिना ....

3. मुंहिंजे जान जी — सांस बि हुईअं तूं।
दुखी दिल जी — आह बि हुईअं तूं॥
अज॒ साहु बिना — मन पियो भटके।
तोखां सिवाय — तन पियो फथके॥
तुंहिजे बिना ....

3. अचु "आशा" हाणु थीउ — गीतन जी तार।
मुंहिंजी साथिणु थी — दुख सुख खे संभार॥
मुंहिंजे तन मन में — विझि अची जान।
"आशाशील" जो वधाए — मान ऐं शान॥
तुंहिंजे बिना ....

"माता जी महिमा"

अचो रे प्यारो तोखे ब॒धायां—माता जी कहाणी।
जंहिं असांखे जन्म द॒िनो आ—सहिया दुख ज॒ाणी॥

1. जंहिं असांखे द॒ह महीना—पंहिंजे गर्भ में हो सांढियो,
वद॒े करण लाइ असांखे—हो खीर पियारियो।
जंहिं असां जे दुखन लाइ—कुछ भी न आ खाधो,
जंहिं असां खे हर हर—छातीअ सां आ लाथो॥
छा असीं भुलजी सधुं था—उन जी भलाई,
जंहिं असांखे ....

2. असां जे वधण वीझण लाइ—तो द॒ाढा हुआ कष्ट द॒िठा,
हर कहिं नन्ढे वद॒े जा—तो हुआ दड़का सठा।
हिन औलाद ख़ातिर—उन्हन खे समझयई तो मिठा,
न कंहिंजी परवाह करे—कष्टन खे हुआ तो कुठा॥
आहीं बि सचमुच माता—घर जी धयाणी।
जंहिं असांखे ....

3. माता असीं बि थीन्दासी—कंवर, लीलाशाह, द॒ाहिर जियां,
माता पिता जी आज्ञा मर्जी—मुंह द॒ींदा सीं दुखन आग॒िंया।
हलन्दासीं वधंदासीं न रुकन्दासीं—मुसीबतन आग॒िंया,
माता तू आसींसा कर—पापन अग॒ियां मां न झुकां॥
"आशाशील" चवे ऐं माता—ब॒णजां मां हेमू कालानी।
जंहिं असां खे ....

" नारी "

नारीअ जनम ॾिनो—आ मरदन खे।
मरदन उन्हनि खे—छा ॾिनो॥

राम-कृष्ण हुन—आहिन ॼणिया।
सीता राधा खे बि—हुन जनम ॾिनो॥
अॼु सभु को थो—सीता राम चवे।
राधे-श्याम थो—हर कोई ॿोले॥
नारीअ जो नालो हो—मरदन खां अॻु में।
अॼु आहे नारी—इज्जत में पुठते॥
नारीअ जनम ॾिनो—आ मरदन खे ....

ॾेती लेती ख़ातिर —थो हुन खे।
मरद ठुकराए—ऐं जलाए॥
वासना में पइजी—थो हुन खे।
दर दर जूं ठोकरूं—थो खाराए॥
हूअ बि त धीअ—आहे कंहिंजी।
पोइ छो न था "आशाशील" रखो सम्भाले॥
नारीअ जनम ॾिनो—आ मरदन खे ....
मरदन उन्हनि खे— छा ॾिनो॥

कलुयुग जी महिमा

कृष्णा हिन कलयुग में ,
अवतार न वठ जाइं।

1. अर्जुन जो तो रथ हलाई,
अजु टागों—हलाइणो पवन्दइ।
ॾिनई गीता ज्ञान—अर्जुन खे,
अजु नूंह पुट बि—न समझन्दई॥
हे कान्हा भुलजी बि—जनम न वठ जां।
कृष्णा हिन ....

2. द्रोपदी जी साड़ी वधायई,
अजु जीनस—वधाइणो पवन्दई।
ध्रुव-प्रहलाद—निःस्वार्थ भॻती कई,
मन्दिर टिकाणा खोले—अजु फुरणो पवन्दई।
हुजई मन्ज़ूर गोपाला—त भले तूं अचजां।
कृष्णा हिन ....

3. द्रोपदी जी देॻड़ी मां—हिक कणो खाधाई।
ॾींदे डकार, ऋष्यिन-जो पेट भरे छॾयाई॥
अजु लखें करोड़े— रुपया खाईंदे।
तॾहिं बि—डकार न ईन्दई॥
"आशाशील" जो चवणु मञु—कॾहिं न हिते अचजां।
कृष्णा हिन ....

समाज

1. कौम जो हीउ गुलिस्तान—अजु थियो आहे खिज़ां।
बाग़ जो हीउ बाग़बान—अजु थियो आहे फ़िनां।।
पतो पतो थिये परे—गुलु बग़ीचे में सड़े।
हिक करे ऐं बियो भरे——इन्सान आपस में पियो लड़े।।

2. देती लेती वैल मचायो—घणन घरन खे मिटायो,
जीअणं कन्या जो ज़हर बणायो—था इन्हन जो खून बहायो
कौम तां हीऊ कलंक मिटायो—लज दैवीयन जी बचायो,
नूंह ससु खां थी डरे—ग़म जा सुदका थी भरे।।
रंक थो ज़हर पिये—धनिक थो मज़ा करे।
पतो पतो ....

2. मरद जो हीउ हाल आ—हिक छदे बी ज़ाल आ,
उबती हिन जी चाल आ—शराब में ई ख्याल आ।
खेलन में बेहाल आ—जुआ जो जमाल आ,
ऐशन में बेख्याल आ—कूड़ जो त्रिक ताल आ।।
नशो करे ज़ाल कुटे—जुआ करे बार सटे,
बीड़ी सिगरेट पाण छिके—कीन पंहिंजी आदत छदे।।
पतो पतो ....

3. हीउ कहिड़ो वैल आ—शादी कीन जेल आ,
बार जरण जो मेल आ—कहिड़ो मालिक जो खेल आ।
साल बि साल बार आ—हिक पुठियां बियो त्यार आ,
बुरो जालुन जो हाल आ—मरदन लाइ जंजाल आ।।
को पियो फ़ाका कढे—को पियो पेट भरे।।
शान भारत जी थी वञे—पाण "आशाशील" थो लजे।।
पतो पतो ....

फिरयल ज़मानो

हिन शहर में क़त्ल लाइ,
क़ातिल घणाई आहिन।
सफ़ेद पोशी में—फ़ुरण लाइ,
दग़ा बाज़—घणाई आहिन॥

1. द॒ाजो न था—घुरन पर,
अन्दर में—खोट अथनि।
हीऊ वफादार न आहिन वफादार,
नूंहरु था छद॒ीन॥
हिन शहर में ....

2. माल मिलिकियत—छद॒े वेन्दा,
साध—था चवन।
पर पाण—मिलिकियत गद॒ु करे,
जमीनूं पिया—वठनि॥
हिन शहर में ....

3. सिन्धी थी—पंहिंजे घरन में,
सिन्धी न था—ग॒ाल्हाइन।
हिक वतन वियो—ब॒ी ब॒ोली वेन्दी,
"आशाशील" कीअं—सिन्धी चवाइन॥
हिन शहर में ....

"उथी कम कर"

ओ बे हिम्मथी नौजवान—उथी कम कर कम कर।

1. अॼु ताईं तूं पलियो आहीं,
सुखन जे संसार में।
धारियां ईन्दा—तूं पियो आहीं नरॻ जी ग़ार में॥
उथु हींअर बि वकत आहे।
उथी कम कर कम कर..

2. ओ मलहार—बेड़ो आ तुंहिजो,
मंझधार में।
ॿेड़ो आ तुंहिंजो फाथो—हिन संसार में॥
ॿेड़ो पार करण लाइ—
उथी कम कर कम कर ...

3. तो वेसारिया गांधी, सुभाष जहिड़ा लाल।
जिन जे करे हो—देश घणो खुशहाल॥
"आशाशील" अहिड़ो—थियण लाइ—
उथी कम कर कम कर ...

"हिम्मथ"

दिल जे अरमानन खे दब॒ाए—ऐं दिल न रो।
अखियन जे आंसुन खे लिकाए—ऐं दिल न रो॥

1. तुंहिंजे दिल जा दुखड़ा—न कोई हिते ब॒धन्दो,
तुंहिंजे मन जा दुकड़ा—न कोई हिते द॒िसन्दो।
रहण ई आहे चुप बेहतर—इन में ई आ भलो॥
दिल जे ....

2. पंहिंजी हिम्मथ सां हलन्दे—त चढ़न्दे वधन्दे,
ब॒ियन जी मदद लाइ तरसन्दे—त लहन्दो वेन्दे।
खुद पाण मदद कन्दे—प्रभु खुद मदद कन्दो॥
दिल जे ....

3. रातियन पुठियां द॒ीहं—द॒ींहंन पुठियां ईन्दयू रातयूं,
ग़म न कर ऐं दिल—तुंहिंजू बि सच थीन्द॒यूं बातियूं।
करे किथे अंधेरो, किथे रोशनी—ब॒रे भले पियो द॒ियो॥
दिल जे ....

4. ज़हर खाई मरण खां—आ बहतर महनत करे तूं मर,
कष्टन ऐं दुखन खे सही—नेताऊं बि थिया अमर।
"आशाशील" उदम सां ई थीन्दो— हल मसैलो॥
दिल जे ....

"दुनियां"

कॾहिं तुंहिंजी दुनियां—कॾहिं मुंहिंजी दुनियां,
करे वाह वाह साम्हूं—ॾे गारियूं थी पुठियां।

1. जेॾाहं ॾिसे ढेरी—तेॾाहं ॾिये फेरी,
बणियो दोस्त कल्ह जो—थियो अॼु जो आ वेरी।
खिलणे खे खिलाए—थी साड़े सड़ियल खे।
कहिड़ी आ उल्टी—तव्हां जी हीअ दुनियां॥
करे वाह वाह ....

2. हलन केस कूड़ा—था अॼु कोर्टन में,
विकामे थो इन्साफ—चइन टकन में।
हिकड़े खे महल—त ॿिया सुम्हन पटन ते,
अनाथन बेवाहन जी—न आहे हीउ दुनियां॥
करे वाह वाह ....

3. यार मतलब आ—प्यार बि मतलब,
सभु कंहिंजे मन में—समायल आ मतलब।
समझो तव्हां "आशाशील" जो हीउ मतलब,
मतलब ही मतलब—सां-भरियल आहे दुनियां॥
करे वाह वाह ....

ज़िन्दगी छा आहे

1. ज़िन्दगी छा आहे।
ॿ पाछा—धूप ऐं छांव॥

2. ज़िन्दगी छा आहे।
ॿ किनारा—दुख ऐं सुख॥

3. ज़िन्दगी छा आहे।
ॿ पासा—आशा ऐं निराशा॥

4. ज़िन्दगी छा आहे।
ताश जा पता—जीत ऐं हार॥

5. ज़िन्दगी छा आहे।
देव ऐं दानव—जोॻु ऐं भोॻु॥

6. "आशाशील" चवे— ओ अदल!
पोइ अहिड़ी जिन्दगी खां—घबड़ाइजे छो॥

ज़िन्दगीअ जो सफ़र

तूं त उदृन्दड़–पंछी यार।
तोते केर–करे ऐतबार॥

1. पट पटीहर–तोखे पहिरायां,
तेल फुलेल–तोखे लगृाया।
हर तरह सां–करियां सींगार॥
तूं त ....

2. ताम तमाम–तोखे खारायां,
सेजा सजाए–तोखे सुम्हारियां।
चाहे सेवा–करियां हज़ार॥
तूं त ....

3. पंज तत्वन जो–पुतलो आहीं,
खिन पल लाइ–पाण पदृाईं।
हलन्दो "आशाशील" हीउ संसार॥
तूं त ....

अरमान

उद॒ रे पखीअड़ा—देश पराए,
हिते तुंहिंजो—कोई बि न आहे।

1. दिल में जेके—तो सपना सजाया,
दिल जा उहे अरमान—थी विया अजाया।
दुनियां उन्हन खे—वेई ठुकराए॥
उद॒ रे ......

2. तो सभनिखे—पंहिंजो थे समझियो,
वक़्त ते पंहिंजो—पराओ थी वियो।
मतलब सां भरियल—हीअ दुनियां आहे॥
उद॒ रे ......

3. पेट भरीन हू था—तूं कढी फ़ाका,
निंड कन हू था—तूं करीं जाग॒ा।
"आशाशील" चिंताउनि—तोखे आहियो रुलाए॥
उद॒ रे ....

“ग़रूर”

चयो मेणबत्तीअ—ग़रूर सां बर्फ खे,
मुंहिंजे साम्हूं तुंहिंजी छा औकात?

मेणबती—मां घर दुकान जो—अन्दर ॿाहर,
अंधेरे में—रोशनी थी करियां।
मां जलन्दी ऐं पिॼरन्दी रहां,
कहिं सां बि—नफ़रत न करियां॥
सभनी त्यौहारन में—जलाइन मूंखे,
सभु दुख सही करे—रखां खुश उन्हन खे।
ठहां मां मेण मां—नंढी-वॾी,
करे ख़ल्क जी सेवा—मां रहां चाकु चङी॥

बर्फ— ॾिनो जवाब मेणबतीअ खे—बर्फ,
करि न ऐतड़ो तूं अभिमान।
मां बि त ॾींहं रात तो वांगर,
ॿार ॿुढ़े ऐं बीमार जी करियां थी सेवा॥
कोई पाणीअ में त कोई शराब में,
कोई शरबत में विझी पिये मूंखे।
कोई फर्क न असां ॿिन्ही में,
तूं पिॼरन्दी आहीं—मां ॻरन्दी आहियां॥

चवे "आशाशील" ओ मिटीअ जा पुतला!
छॾे महल माड़ियूं—हिक ॾींहं मिटीअ में मिलणो आ।
सिखु मेणबती ऐं बर्फ खां,
दीन दुखियन जी—तोखे सेवा करणी आहे॥

मतलबी दुनियां

दि॒ठी सीं यारन जी यारी,
मतलबी आ—दुनियां सारी।

1. जिन लाइ असीं—लहू वहायूं,
उहे न वहाइन—पसीनो।
जिन जी ख्वाइश—पूरी करण लाइ,
रखूं पंहिंजो सीनो॥
रहूं हर दम तैयार—भले हुजे लाचारी।
मतलबी आ दुनियां ....

2. हुजूं खणी मुसीबत में,
पर समझूं उन्हन जे—ग़मन खे ग़म।
दिल जे—दर्दन खे लिकाए,
डि॒यूं उन्हन जी—खुशीअ लाइ दम॥
पर असां जी न समझनि—हू दिल जी गुबारी।
मतलबी आ दुनियां ....

3. सच जो न आहे—को कदर,
कूर कपट जी आहे—हीअ दुनियां।
वफा जे बदले—मिले बेवफाई,
धन दौलत जी—आहे हीअ दुनियां॥
बेवफा समझनि "आशाशील" चाहे दे॒खारियूं वफादारी।
मतलबी आ दुनियां ....

कवि जी वाकुफ़्यत



शायर- डॉ. मूलचन्द पी. कोॾुवाणी

तखलसु - "आशाशील"

जन्म - 1 अक्टूबर 1937

जन्म स्थान - टंडो मरी (ज़िला-हैदराबाद, सिन्ध)

शिक्षा - एम.ए. (समाज शास्त्र), आयुर्वेद रत्न

कारोबार - चिकित्सक (डॉक्टरी)

पतो - म. नं. 3/153/25 डी/5 सी, सत्यनगर, शाहगंज, आगरा -10
मो. नं. 09528270557

प्रकाशन -"वाॻु धणी तुंहिंजे वसु" (कविताऊं) उ. प्र. सिन्धी अकादमी जी माली मदद सां छपायल ऐं सिन्धी हिन्दवासी, कल्पना, चाण्डोकी वगेरा में मज़ाकिया मज़मून कविताऊं ऐं कहाणियूं छपयल।

पुरस्कार - 1998, 2001, 2007 में उ. प्र. सिन्धी अकादमी लखनऊ तरफां सिन्धी कविताऊन में श्री सरल ज्ञापरटे जे सहयोग सां इनाम ऐं सिन्धु सहित्य मण्डल आगरा तरफां कविता ऐं नाटिकन (ॾाइण ॾेती लेती, महाराजा ॾाहर सेन में स्त्री पार्ट में) इनाम। हिन्दी सा. स. प्रयाग तरफां 2004 में इनाम। 2010 में बि उ. प्र.सिन्धी एकादमी, लखनऊ तरफां इनाम मिलियो।

ॿियो कुछ - भू. पू. उप प्रधान सिन्धू साहित्य मण्डल, आगरा ऐं इन्डियन मेडीसन प्रेक्टीशनर ऐसो. आगरा।

भूतपूर्व महामन्त्री- सिन्धु साहित्य मण्डल, आगरा।

भूतपूर्व सहायक सम्पादक - चाण्डोकी (रजि. आगरा)
सिन्धी पंचायत जो कार्य कारिणी सदस्य।

आणि छपयल- कई कहाणियूं ऐं कविताऊं आहिन।

भाषा- सिन्धी (अरबी-देवनागरी) हिन्दी- अंग्रेजी-उर्दू।